

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3204

L

Unique Paper Code : 2412083602

Name of the Paper : DSC 6.2 – Corporate Governance

Name of the Course : B.Com. (H)

Semester : VI

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **all** questions. Each question has internal choice.
3. **All** questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर देने का विकल्प है।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) "Corporate Governance is not merely about compliance, but also about building trust and accountability." Discuss this statement in the light of the meaning, significance and principles of corporate governance. (9)
(b) "The Anglo- Saxon Model emphasizes shareholder wealth maximization, whereas the Japanese model focusses more on stakeholder interests." Do you agree? Compare and contrast these two models of corporate governance. (9)

OR

- (a) "A corporation should serve the interests of all stakeholders and not merely its shareholders." Analyse this statement in the context of Stakeholder Theory and Shareholder Theory of corporate governance. (9)
(b) Explain the concept of "Art of Governance" as propounded by Kautilya in the Arthashastra. How are his ideas relevant to modern corporate governance practices? (9)

2. (a) "Shareholders activism acts as an important mechanism for ensuring managerial accountability." Discuss. (9)
- (b) Discuss the philosophical foundations of Trusteeship model of CSR as propounded by Gandhiji. Do you think that this model is still relevant for corporates? (9)

OR

- (a) "Whistle-blowing promotes transparency and ethical conduct within organisations, yet whistle-blowers often face serious professional and personal risks." In the light of this statement, discuss the regulations relating to whistle-blowing and protection of whistle-blowers in India. (9)
- (b) Explain the concept of class action suits. How do they contribute towards protecting shareholders' interests? (9)
3. (a) "The WorldCom scandal exposed serious failures in corporate governance and ethical accounting practices". Discuss. (9)
- (b) What are the key recommendations of the Cadbury Committee, as contained in the 'Code of Best Practices'? (9)

OR

- (a) "The Vivendi crisis reflected the risks of aggressive expansion and poor financial governance." Elucidate. (9)
- (b) Explain the key provisions of the Sarbanes-Oxley Act (SOX), 2002. How did it seek to restore investor confidence after corporate scandals in the USA? (9)
4. (a) Write in brief provisions relating to (i) Audit Committee and (ii) Nomination and Remuneration Committee as contained in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (9)
- (b) Discuss any six provisions in Companies Act, 2013 that aim to improve corporate governance standards in India. (9)

OR

- (a) Write provisions relating to Independent Directors as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (9)
- (b) What are the key recommendations of Narayana Murthy Committee in promoting transparency and accountability in companies in India? (9)

5. (a) "The Satyam scandal is often described as India's Enron." Discuss the major corporate governance failures responsible for the collapse of Satyam Computer Services Ltd. (9)
- (b) "The ICICI Bank controversy raised important corporate governance issues in the banking sector." Discuss. (9)

OR

- (a) "Corporate governance failures in financial institutions can weaken public trust in the entire banking system." Discuss with reference to PNB scam. (9)
- (b) Analyse the major issues of corporate governance responsible for the IF&LS Group crisis. (9)
1. (क) "कॉर्पोरेट गवर्नेंस केवल अनुपालन के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास और जवाबदेही स्थापित करने के बारे में भी है।" कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अर्थ, महत्व और सिद्धांतों के प्रकाश में इस कथन की चर्चा करें। (9)
- (ख) "एंग्लो-सैक्सन मॉडल शेयरधारकों की संपत्ति को अधिकतम करने पर जोर देता है, जबकि जापानी मॉडल हितधारकों के हितों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।" क्या आप सहमत हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इन दोनों मॉडलों की तुलना और अंतर स्पष्ट करें। (9)

या

- (क) "एक निगम को सभी हितधारकों के हितों की सेवा करनी चाहिए, न कि केवल अपने शेयरधारकों के।" कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हितधारक सिद्धांत और शेयरधारक सिद्धांत के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। (9)
- (ख) कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में प्रतिपादित "शासन कला" की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उनके विचार आधुनिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए किस प्रकार प्रासंगिक हैं? (9)
2. (क) "शेयरधारकों की सक्रियता प्रबंधकीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है।" चर्चा कीजिए। (9)
- (ख) गांधीजी द्वारा प्रतिपादित सीएसआर के ट्रस्टीशिप मॉडल के दार्शनिक आधारों पर चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि यह मॉडल आज भी कॉर्पोरेट जगत के लिए प्रासंगिक है? (9)

या

- (क) "व्हिसलब्लोइंग संगठनों के भीतर पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है, फिर भी व्हिसलब्लोअर को अक्सर गंभीर पेशेवर और व्यक्तिगत जोखिमों का सामना करना पड़ता है।" इस कथन के आलोक में, भारत में व्हिसलब्लोइंग और व्हिसलब्लोअर के संरक्षण से संबंधित नियमों पर चर्चा कीजिए। (9)

(ख) क्लास एक्शन सूट की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये शेयरधारकों के हितों की रक्षा में किस प्रकार योगदान देते हैं? (9)

3. (क) “वर्ल्डकॉम घोटाले ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिक लेखांकन प्रथाओं में गंभीर कमियों को उजागर किया।” चर्चा कीजिए। (9)

(ख) ‘सर्वोत्तम कार्यप्रणाली संहिता’ में निहित कैडबरी समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? (9)

या

(क) “विवेडी संकट ने आक्रामक विस्तार और खराब वित्तीय प्रशासन के जोखिमों को दर्शाया।” स्पष्ट कीजिए। (9)

(ख) सरबेन्स-ऑक्सले अधिनियम (एसओएक्स), 2002 के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। इसने अमेरिका में कॉर्पोरेट घोटालों के बाद निवेशकों का विश्वास बहाल करने का प्रयास कैसे किया? (9)

4. (क) एसईबीआई (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निहित (i) लेखापरीक्षा समिति और (ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति से संबंधित प्रावधानों को संक्षेप में लिखिए। (9)

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के किन्हीं छह प्रावधानों पर चर्चा कीजिए जिनका उद्देश्य भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों में सुधार करना है। (9)

या

(क) एसईबीआई (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान लिखिए। (9)

(ख) भारत में कंपनियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए नारायण मूर्ति समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? (9)

5. (क) “सत्यम घोटाले को अक्सर भारत का एनरॉन कहा जाता है।” सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के पतन के लिए जिम्मेदार प्रमुख कॉर्पोरेट गवर्नेंस विफलताओं पर चर्चा कीजिए। (9)

(ख) “आईसीआईसीआई बैंक विवाद ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुद्दे उठाए।” चर्चा कीजिए। (9)

या

(क) “वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस विफलताएँ संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती हैं।” पीएनबी घोटाले के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (9)

(ख) आईएफ एंड एलएस समूह संकट के लिए जिम्मेदार प्रमुख कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। (9)